

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जौन उतर

क्रमांक: LU/2021/ADA/2025-26/19139

अन्वेषक प्रविष्टि प्राधिकरण, अजमेर
पुलिस

दिनांक: 16/03/2026

श्रीमती: SMT. SHARDA KHORWAL पुत्री श्री SHRI MAHENDRA KHORWAL जाति RAGER निवासी 27/8, SHANTI NAGAR, MALUSAR ROAD, AJMER

है न केवल यह कि श्री उल्लिखित पुलिस का आवाराया प्रयोजन के उपयोग हेतु रीति मुद्रि के अपने अधिकाधिक अधिकारों के विषयों में लिखित अवैधान्तिक रूप किया है, अपितु—

क्र. सं.	नाम लेखक व जिसे का नाम	कांतांतर का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
१.	कादम्बर (अजमेर)	SMT SHARDA KHORWAL	566	2600	0.26
				कुल	0.26

इसलिए, सरके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवश्यक भू-परमाणु जानकारी प्राप्त हो, इसकी कीमत 90/- रु और परामर्श अधिकारी अधिनियम, 1955 की धारा 62 के अंतर्गत प्रत्येक प्रयोजन के लिए मुद्रि के उपयोग हेतु अनुदान प्रदान करने और अधिकाधिक अधिकारों से निवारण कर कोई अप्रति है तो वह अनिवार्य रूप से प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अप्रति आदेश/आज्ञादी से जोर देकर इन तक 90/- Ru For Development Authority (UDA) अधिनियम पर आधारित सर्वप्रथम तत्त्वस्थान को अवैधान्तिक रूप अधिकाधिक दर्ज कर सकता है।

उपरोक्त पिछले समय के भीतर-भीतर किसी अधिकार के अनुसार मैं वह सामाना ज्ञापित कि किसी को आपस नहीं है और तदनुरूप मामले का निपटारा किया जाएगा।

वह खुलासा रहे हस्ताक्षर अपने पत्र के अधीन आज 16-03-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जौन उतर
अन्वेषक प्रविष्टि प्राधिकरण, अजमेर

[illegible]

**एमडीएसयू के बाहर एबीवीपी का
प्रदर्शन, छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम**

नंदाराम चौधरी का स्वागत

अवसर, (कासं)। भाजपा किसान मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष नंदाराम चौधरी ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोनीत कासप जाते पर उनके अजमेर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत एवं अभिन्दन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शरावज सिंह पलाड़ा ने किया। कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाएं पहनाकर "हैं नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं"। इस अवसर पर नंदाराम चौधरी ने

■ पुलिस और छात्रों के बीच हुई तीखी झड़प, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर खुलवाया रास्ता

और रास्ता रोककर बैठ गए। इससे विश्वविद्यालय के आसपास यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शन के कारण लगे जाम के दौरान अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला का वाहन भी वहां पहुंच गया। सड़क अवरुद्ध होने के कारण उनका वाहन भी जाम में फंस गया। प्रदर्शनकारी

छात्रों ने रास्ता खाली नहीं किया, जिससे पुलिस अधीक्षक का वाहन आगे नहीं बढ़ सका। स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं वाहन से नीचे उतरे और मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से प्रदर्शन और यातायात की स्थिति की जानकारी ली।

विश्वविद्यालय के बाहर हंगामे और सड़क जाम की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी शिवम जोशी, सिविल लाईंस थाना प्रभारी शंभू सिंह और क्रिश्चियन गंज थाना प्रभारी अरविंद चारण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर उन्हें सड़क से हटने और आवगमन बहाल करने के लिए समझाने का प्रयास किया।

[illegible]

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जेन उत्तर

आवेदन क्र. LU/2014/2024/2055-26/101937

लोक सूचना

दिनांक: 16/03/2022

श्रीमती SMT. SHARDA KHORWAL पुत्री श्री SHRI MAHENDRA KHORWAL जाति REGAR निवासी 27/86, SHANTI NAGAR, MALUSAR ROAD, AJMER

हैं, हमें कानूनन योग्य तरीके परिलक्षित प्रमाण का आस्थापूर्व प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूत अधिकारों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम सभा के पंक्ति का नाम	कार्यालय का नाम	खरास सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	कायड, अजमेर (अजमेर)	SMT. SHARDA KHORWAL	698	4500	0.45
2.	कायड, अजमेर (अजमेर)	SMT. SHARDA KHORWAL	705	600	0.06
कुल					0.51

हरालिए, इसके द्वारा संपन्न संबंधित स्थानों को सूचित किया जाता है कि यह स्थिति किसी व्यक्ति को राजस्वस भू-प्राप्ति अर्थात् 1000 रु प्रति एकड़ तक और राजस्वस अधिकतम प्रतिशत, 1955 की धारा 63 के अन्वये सूचित प्राप्ति के लिए योग्य है परन्तु यह अज्ञात रूप से अधिभूत अधिकारों को निम्न निम्नानुसार पर कोई आस्था है। 1000 रु प्रति एकड़ के प्रकारों में 7 रु के भीतर-भूत जाते हैं। एतदुद्धा को आदेशों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्लंघन कर **UDF For Development Authority (UDHA)** अधिकारी पर जाते। राजस्व के राजस्वों से उल्ल

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाडा (राजस्थान)

भीलवाडा रोड़ रोडवेज बस स्टेण्ड के पास

E-Mail ID-eombgbp@yahoo.in npbgulabpura@gmail.com

Telephone No.01483-223079

क्रमांक / न०पा०गु० / कृषि भूमि / 2026 / **1240**

दिनांक: 05/08/2026

—: शहरी सेवा शिविर 2026 :—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नामान्तरण/निर्माण स्वीकृति/कृषि भूमि नियमन के तहत निम्नानुसार आवेदन प्राप्त जिसके निस्तारण किए जाने में किसी आम-खास/संस्था आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 07 में लिखित रूप से आपत्तिकर्ता मय अपने दस्तावेजों के इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा हैं। बाद मियाद आवेदक (अन्तिम क्रेता) के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र. सं.	ऑनलाईन आवेदन क्रमांक	नाम आवेदक	भूखण्ड संख्या	साईज	क्षेत्रफल (वर्गगज)	कॉलोनी व भूखण्ड के पडोस	फाईल का प्रकार
1.	203128 23.07.2026	श्रीमती लक्ष्मी देवी दमांगी पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार, गुलाबपुरा	37	25X50	138.88	गुरु पन्ना नगर द्वितीय आराजी नं. 852/1 पूर्व – आम रास्ता 30 फीट पश्चिम– भूखण्ड संख्या 42 उत्तर– भूखण्ड संख्या 36 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 38	नामान्तरण/भवन निर्माण स्वीकृति
2.		श्रीमती शहनाज बानू पत्नि श्री दाउद मोहम्मद	166	25X50	138.88	चित्रकूट कॉलोनी, गुलाबपुरा। आराजी नं. 89, 107, 108 पूर्व – भूखण्ड संख्या 02 पश्चिम– अन्य आराजी उत्तर– 30 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण– अन्य आराजी	भवन निर्माण स्वीकृति प्रथम तल
3.		श्री रज्जाक मोहम्मद मंसूरी पुत्र श्री सत्तार मोहम्मद मंसूरी	41 का पश्चिमी भाग	25X50	138.88	आराजी नं. 111/1, 111/2, 1977/111 पूर्व – भूखण्ड संख्या 41 का पूर्वी भाग पश्चिम– भूखण्ड संख्या 42 उत्तर– अन्य आराजी दक्षिण– 30 फीट चौड़ी सड़क	भवन निर्माण स्वीकृति
4.	345 29.07.2026	श्री आमिर खान पुत्र श्री उममेद खान, गुलाबपुरा	12	30X48	160	निरंकारी कॉलोनी आराजी नं. 110, 5070/110, 5069/110 पूर्व – भूखण्ड संख्या 13 पश्चिम– भूखण्ड संख्या 11 उत्तर– आम रास्ता 30 फीट दक्षिण– अन्य आराजी	भवन निर्माण स्वीकृति
5.	202312 19.07.2026	श्रीमती सुनिता देवी पत्नि श्री राकेश कुमार बैरवा	57	20X45	100	श्रीरामनगर आराजी नं. 1048, 1049, 2023/1050, 1052, 1056 पूर्व – भूखण्ड संख्या 58 पश्चिम– भूखण्ड संख्या 56 उत्तर– अन्य आराजी दक्षिण– आम रास्ता 30 फीट चौड़ा	नामान्तरण
6.		श्री प्रवीण कुमार गर्ग पुत्र श्री माणक चन्द गर्ग	20	30X50	166.66	आर.के. पुरम आराजी नं. 326, 334, 359/1, 359/2 पूर्व – आम रास्ता 40 फीट चौड़ा पश्चिम– भूखण्ड संख्या 15 उत्तर– भूखण्ड संख्या 21 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 19	नामान्तरण
7.	203025 23.07.2026	श्री मुकेश कुमार लखारा पुत्र श्री जमना लाल लखारा एवं श्री लखन लखारा पुत्र श्री सुरेन्द्र लखारा	60	25X45	125	वृन्दावन कॉलोनी प्रथम आराजी नं. 69/2 से 69/8 व 74 पूर्व – भूखण्ड संख्या 51 पश्चिम– आम रास्ता 30 फीट उत्तर– भूखण्ड संख्या 59 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 61	नामान्तरण
8.		श्री सांवर लाल गुर्जर पुत्र श्री भोमाराम गुर्जर	58	30X75+62/2	228.33	आराजी नं 1081, 1082, 1082, 1101 पूर्व – अन्य आराजी पश्चिम– आम रास्ता उत्तर– भूखण्ड संख्या 59 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 57	नामान्तरण
9.	465860 28.07.2026	श्री सुनिता देवी पत्नि श्री दिनेश कुमार उच्चेनिया	26	25X40	111.11	भैरव नगर आराजी नं. 1472/1, 1472/2, 1472 मीन, नया (158) पूर्व – भूखण्ड संख्या 31 व 32 पश्चिम– आम रास्ता 25 उत्तर– भूखण्ड संख्या 25 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 27	कृषि
10.	465844 28.07.2026	श्री सुनिता देवी पत्नि श्री दिनेश कुमार उच्चेनिया	27	25X40	111.11	भैरव नगर आराजी नं. 1472/1, 1472/2, 1472 मीन, नया (158) पूर्व – भूखण्ड संख्या 32 पश्चिम– आम रास्ता उत्तर– भूखण्ड संख्या 26 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 28	कृषि

11.	465931 29.07.2026	श्रीमती बसंती ओलानिया पत्नि श्री कैलाश चंद रेगर	32 व 33	70X60	466.66	बैरव नगर आराजी नं. 1472 / 1, 1472 / 2, 1472 मीन, नया (158) पूर्व – भूखण्ड संख्या 38 पश्चिम– भूखण्ड संख्या 27, 28, 29 उत्तर– भूखण्ड संख्या 31 दक्षिण– पुराना रास्ता	कृषि
12.	438825	श्रीमती भंवर सिंह	-	14.3+20.3/ 2X38	72.83	गुलाब बाबा की धुणी, गुलाबपुरा पूर्व – बिजयनगर रोड पश्चिम– श्री हरिसिंह की जायदाद उत्तर– गली दक्षिण– श्री रामदेव खारोल का प्लाट	69–क
13.	438717	श्री हरिसिंह	-	143+203/2 X38	72.83	गुलाब बाबा की धुणी, गुलाबपुरा पूर्व – भंवर सिंह की जायदाद पश्चिम– श्रीमती मीरा देवी की जायदाद उत्तर– गली दक्षिण– श्रीमती मूनी देवी प्रजापत का मकान	69–क
14.	438778	श्रीमती मीरा देवी	-	-	73.12	गुलाब बाबा की धुणी, गुलाबपुरा पूर्व – श्री हरिसिंह की जायदाद पश्चिम– श्री प्रहलाद गुर्जर का मकान उत्तर– गली दक्षिण– श्री बजरंग मेवाडा का प्लाट	69–क
15.	437358	श्री दिनेश वैष्णव पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद वैष्णव	-	35.6X33.3	131.11	सिंधी कॉलोनी, कुम्हार मौहल्ला, गुलाबपुरा पूर्व – आम रास्ता पश्चिम– श्री भूरालाल लोहार का मकान उत्तर– श्री सुरेन्द्र डांगी का मकान दक्षिण– आम रास्ता	69–क
16.	432216 17.07.2026	श्री गोकुल सिंह राठौड पुत्र श्री ओकार सिंह	41	25X40	111.11	नाकोडा नगर आराजी नं. 852 / 3 पूर्व – भूखण्ड संख्या 32 पश्चिम– रोड 20 फीट चौड़ा उत्तर– भूखण्ड संख्या 42 दक्षिण– रोड 20 फीट चौड़ा	कृषि
17.	459804 20.07.2026	श्रीमती बानू बेगम पुत्र श्री अब्दुल रहमान	17	25X40	111.111	आराजी नं. 82 / 2 पूर्व – रास्ता पश्चिम– भूखण्ड संख्या 21 उत्तर– भूखण्ड संख्या 16 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 18	कृषि
18.	459805 20.07.2026	श्रीमती बानू बेगम पुत्र श्री अब्दुल रहमान	16	25X40	111.111	आराजी नं. 82 / 2 पूर्व – रास्ता पश्चिम– भूखण्ड संख्या 20 उत्तर– भूखण्ड संख्या 15 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 17	कृषि
19.	459806 20.07.2026	श्रीमती बानू बेगम पुत्र श्री अब्दुल रहमान	-	12X110	152.77	तेलीपाड़ा गुलाबपुरा पूर्व – सदीक मोहम्मद का मकान पश्चिम– आम रास्ता उत्तर– अमीरदीन उर्फ लाला का मकान दक्षिण– जामा मस्जिद	स्टेट ग्रांट
20.		श्री अब्दुल रहीम पुत्र श्री अब्दुल मजीद	-	29X40	130	सजनाबाद गुलाबपुरा पूर्व – आम रास्ता पश्चिम– अमाउल्लाह का मकान उत्तर– आम रोड दक्षिण– हकीम का मकान	स्टेट ग्रांट
21.	01.08.2026	श्री इमरान पुत्र श्री वली मोहम्मद	-	22.5+22.3/ 42.4	120.32	सजनाबाद गुलाबपुरा पूर्व – रिजवान की जायदाद पश्चिम– आम रास्ता उत्तर– श्री फजलू की जायदाद दक्षिण– आम रास्ता	स्टेट ग्रांट
22.	01.08.2026	श्री रिजवान मोहम्मद पुत्र श्री वली मोहम्मद	-	20.6+22.5/ 2X43.3	99.88	सजनाबाद गुलाबपुरा पूर्व – श्री रईस की जायदाद पश्चिम– इमरान की जायदाद उत्तर– श्री फजलू की जायदाद दक्षिण– आम रास्ता	स्टेट ग्रांट
23.		श्रीमती रेखा देवी रेगर पत्नि श्री हगामी लाल रेगर	34	25X40	111.11	आराजी नं. 880 अम्बेडकर कॉलोनी, गुलाबपुरा पूर्व – अन्य आराजी पश्चिम– भूखण्ड संख्या 33 उत्तर– भूखण्ड संख्या ए–03 व ए–04 दक्षिण– सडक 30 फीट चौड़ी	स्टेट ग्रांट
24.		श्रीमती लक्ष्मी बैरवा पत्नि श्री अजय बैरवा	15	25X40	111.11	आराजी नं. 852 / 1 पूर्व – भूखण्ड संख्या 13 पश्चिम– आम रास्ता 30 फीट उत्तर– भूखण्ड संख्या 16 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 14	नामान्तरण
25.		श्री धनराज गुर्जर पुत्र श्री सुखपाल गुर्जर	40A	25X40	111.11	आराजी नं. 5060 / 862, 5143 / 866, 5145 / 868 आदर्शनगर कॉलोनी पूर्व – आम रास्ता 30 फीट पश्चिम– अन्य आराजी उत्तर– भूखण्ड संख्या 41 दक्षिण– भूखण्ड संख्या 40	नामान्तरण निर्माण

अधिशायी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा